

Date: June 21, 2024

To,

The Manager Listing **BSE Limited**P.J. Towers, Dalal Street,

Mumbai – 400 001 **Scrip Code: 538987**

Sub: Submission of Newspaper Advertisements under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 read with para-A of Part A of Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose Copy of Newspaper Advertisement published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on June 21, 2024 as required under Section 124 of Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016:

You are requested to take the information on your records.

Thanking you.

For Talbros Engineering Limited

Anuj Digitally signed by Anuj Gupta Date:
2024.06.21
11:55:45
+05'30'

Anuj Gupta Company Secretary cum Compliance Officer

Encl. a/a

FRIDAY, JUNE 21, 2024

CAN FIN HOMES LTD.

SCO-3, 1st Floor, Sector-14, Sonepat-131001 Ph: 0130-2235101 M. 7625079179 Email: sonepat@canfinhomes.com CIN NO. L85110KA1987PLC008699 **DEMAND NOTICE**

Under Section 13 (2) of "The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No. 54 of 2002)"

1. Mrs. Anju Devi W/o Late Jai Parkash (Borrower) (Represented of Late Jai Prakash)

Gali No 2 Rishi Kunj Devru Road Sonepat Harvana-131001. and All legal heirs of Late Jai Parkash S/o Mahender Singh.

Residing at Gali No 2 Rishi Kunj Devru Road Sonepat Haryana 131001. You alongwith Late Jai Prakash have availed a housing loan from our branch against the

security of mortgage of the following asset belonging to Late Jai Parkash S/o Mahender Singh. An amount of Rs. 16,18,344/- (Rupees Sixteen Lakh Eighteen Thousand Three Hundred Forty Four Only) is due from you, to Can Fin Homes Ltd. as on 31.05.2024 together with future interest at the contracted rate. **DETAILS OF THE MORTGAGED ASSET**

KHEWAT NO 2943, KATONI NO. 4042, IN RECT. KILLA NO. 2258(11-18), 2276(4-19).

2280(6-4) IN THE REVENUE ESTATE OF PATTI MUSALMANA, WITH IN THE M.C. SONEPAT HARYANA 131001.

The boundaries of the property are as under

East:-Plot of other. West:-Plot of other. North:-Plot of other. South:- Gali/Rasta.

Registered demand notice was sent to you amongst you under Section 13(2) of the SARFAESI Act, 2002, but the same was returned unserved/deceased. The undersigned has, therefore, caused these Notices to be pasted on the premises of the last known addresses of the said **Borrower/s** as per the said Act. Hence this paper publication. As you have failed to adhere to the terms of the sanction, the account is classified as a Non Performing Asset on NPA 29.05.2024 as per the NHB Guidelines. You are hereby called upon to pay the above said amount with contracted rate of interest thereon from 31.05.2024 DEMAND NOTICE within 60 days from the date of this notice, failing which the undersigned will be constrained to Initiate action under SARFAESI Act to enforce the

aforesaid security. Further, the attention of borrowers / quarantors is invited to the

provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to them to

Date: 20.06.2024 Place: Sonepat

redeem the secured assets.

Authorised Officer Can Fin Homes Ltd.

----Sd---

Encore Asset Reconstruction Company earc Private Limited (Encore Arc)

5TH FLOOR, PLOT NO. 137, SECTOR 44, GURUGRAM - 122 002, HARYANA

E-AUCTION SALE NOTICE

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Asset under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Proviso to Rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (Rules). Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower and

Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to Indostal Capital Finance Limited to secure the outstanding dues in the loan account since assigned to the Encore Asset Reconstruction Company Private Limited, acting in its capacity as the trustee of EARC -BANK - 030 -Trust ("Secured Creditor"), the physical possession of which has been taken over by the Authorised Officer (AO) of the Secured Creditor, will be sold on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", and "WHATEVER THERE IS" basis on 08.07.2024 for recovery of Rs. 3,68,10,615/- (Rupees Three Crore Sixty Eight Lakhs Ten Thousand Six Hundred Fifteen only) as on 31.10.2023 and further interest at contractual rate till recovery and other costs, charges etc. after adjustment of recovery/realization, if any, due to the Secured creditor from borrower M/s. Sparkling Spring Facility Management. Mr. Pritpal Singh, Mr. Kulwant Singh Hora, Mrs. Taranjeet Kaur & M/s. Evershine Housekeeping Service (hereinafter collectively mentioned as "Co-Borrowers").

The description of the property, Reserve Price (RP) for the secured asset & the Earnes Money Deposit (EMD) is be as under:

	Earnest Money Deposit
3,82,00,000/-	38,20,000/-
	3,82,00,000/-

In case the e-auction date is declared public holiday then the date will be automatically extended to very next working day.

For detailed terms & conditions please refer to the link provided in the secured creditor's website i.e., http://www.encorearc.com/ For any clarification/information, interested parties may contact the Authorised Officer of the

Secured Creditor on mobile no. 9873181249/8384075292 or email a sachin.kumar@encorearc.com Date: 20.06.2024 Sd/- Authorised Officer

Encore Asset Reconstruction Company Pvt. Ltd. Place: Gurugram

UNIMONI FINANCIAL SERVICES LIMITED RO: N.G. 12 & 13 Ground Floor, North Block, Manipal Centre, Dickenson Road, Bangalore - 560 042. CIN No.U85110KA1995PLC018175

PUBLIC NOTICE

This is to inform the Public that Auction of pledged Gold Ornaments will be conducted by UNIMONI FINANCIAL SERVICES LIMITED on 24.06.2024 at 10:00am at the respective centers given below. The Gold Ornaments to be auctioned belong to Loan Accounts of our various Customers who have failed to pay their dues. Our notices of auction have been duly issued to these borrowers. The Gold Ornaments to be auctioned belong to Overdue Loan Accounts of our various Customers mentioned below with branch name.

Auction Centre Address & Loan Nos: BASTI (BTI - First Floor 91, Rama

Niwas, Maliviya Road, Above IDBI Bank, Gandhinagar, Basti -272001.

Contact no : 9305546358) 2069106. DEORIA (DEO - Kailash Mandap, Next To O B C, Gorakhpur Road, Deoria -274001, Contact no 9935305599) 2034101, 2049739, 2066498, 2013638, 2015809 2062603. GONDA (GDA - Modi Heights, Station Road,1St Floor, 199+202/178,Gonda -271002, Contact no : 9839906446) 2052005. GORAKHPUR (GOR - No. 2, Ground Floor, Prahlad Rai Trade Centre, Bank Road Crossing, Gorakhpur -273001, Contact no 9839755335) 2052733, 2066110, 2071908, 2068434. KASIA (KSA No 124, Main Road Gola Bazarkasia, Kushinagar, Kasia -274402 Contact no: 9305020600) 2070707, 2017697, 2069947, 2051091, 2053261, 2032937, 2069973, 2070435, 2071187, 2071458, 2087294 2033309, 2091007, 2089959, LUCKNOW(LUK - G Floor, 44 A. Laxmi Plaza, Cantt Road, Lucknow-226001, Contact no :9935383311 2052467, 2071626. PRAYAGRAJ (ALD - Building No.136A/14A/2, Hans Tower, Tashkandmarg ,Near Patrika Crossing, CiPrayagraj -211001, Contact no :9305011655) 2067523, 2038703. UNNAO (UNN - Building No 2, Babuganj, Unnao -209801, Contact no : 9307616727) 2071718

(Reserves the right to alter the number of accounts to be auctioned &/ postpone / cancel the auction without any prior notice.)



ORIX LEASING & FINANCIAL SERVICES INDIA LIMITED (formerly known as OAIS Auto Financial Services Limited)

(A Subsidiary of ORIX Auto Infrastructure Services Limited) Regd. Office: Plot No. 94, Marol Co-operative Industrial Estate, Andheri-Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400 059 Tel.: + 91 22 2859 5093 / 6707 0100 | Fax: +91 22 2852 8549 Email: info@orixindia.com | www.orixindia.com | CIN: U74900MH2006PLC163937

POSSESSION NOTICE [RULE 8(1) SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002]

Whereas, the undersigned being the authorised officer of ORIX Leasing & Financial Services India Limited, under the Securitization And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred by section 13(12) of the said act read with rule 9 of THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 issued a notice dated 29.03.2024 calling upon Sunita, Sandeep Sejwal, Jai Pal Sejwal, Sahab Kaur & Juli as borrower/ coborrowers/ mortgagers to repay the amount mentioned in the notice being INR 22,41,051.40/- (Rupees Twenty Two Lakh Forty One Thousand Fifty One and Forty Paise Only) within 60 days of the receipt of the said notice together with further interest and other charges from the date of demand notice till the date of payment/realization.

 The borrowers and co-borrowers despite being served with the said notice and having failed to repay the entire notice amount together with further interest and other charges. In view of the above, notice is hereby given to the borrowers and public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described here in under in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said act read with rule 8 of the said rules on 18th June 2024.

3. The borrowers and co-borrowers in particular and public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing in the property would be subject to the charge of ORIX Leasing and Financial Services India Limited of INR 22,41,051.40/- (Rupees Twenty Two Lakh Forty One Thousand Fifty One and Forty Paise Only) together with further interest and other charges from the date of demand notice till the date of payment/ realization.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY

Item-1:- All That Piece And Parcel Of Property Bearing No. 105/2, Admeasuring 100 Sq. Yds., Part Of Khasra No. 251/200, Situated In The Abadi Under Lal Dora Of Village Adhchini, New Delhi-110017, And Bounded As: East: House Of Sh. Ajaab Singh, West: House No. 105/2a Of Sh. Ram Kishan, North: House No. 105/3, Of Sh. Muni Ram, South: Right Of Way, Gali 04 Ft. Item-2:- All That Piece And Parcel Property Bearing No. 105/2-a, Admeasuring 286 Sq.

Yds., Part Of Khasra No. 160, Situated In The Abadi Under Lal Dora Of Village Adhchini Khas, Tehsil: Hauz Khas, New Delhi-110017, And Bounded As: East: Gali 7 Ft. Wide O/property, West: Gali 12 Ft. Wide/masjid, North: Gali 10 Ft. Wide, South: Gali 13 Ft. Wide

Date: 18-06-2024 Place: DELHI Yours Faithfully, Loan Account No : LN0000000014674 & **Authorised Officer** LN0000000014675 ORIX Leasing & Financial Services India Limited



Investment aur Trust, Dono **SBICAP Securities Limited** 9E-9F, 9th Floor, Vandana Tower, Tolstoy Marg, Connaught Place, New Delhi - 110001.

NOTICE INVITING TENDER (NIT) PREMISES REQUIRED FOR BRANCH OFFICE

 SBICAP Securities Limited invites offers in Two Bid system from owners / power of attorney holders for the commercial / office premises having carpet area of approximate 1500-2000 sq. ft. (excluding Lavatory, lift lobby etc.) on Lease Rental basis for its Branch Office proximity of Sector 18 in Noida. 2. The premises should be preferably in the prime locality in

Noida Sector 18 (within 500 meter radius) on a main road with adequate dedicated parking space and predominantly in the cluster of commercial establishments, preferably ready / likely to be ready for immediate possession.

3. Prescribed format of bids may be obtained from our office or may be downloaded from our website www.sbisecurities.in > Request for proposal. Sealed bids may be submitted at the above address. Last date for submission of bids is 28.06.2024 within 3 pm. Technical bids shall be opened on the same day between 4.00 pm to 5 pm. 4. The company reserves the right to reject all or any of the offers without assigning any reason.

- Branch Manager (Retail Broking)

M IDBI BANK SHOW CAUSE NOTICE

Ground Floor, 4/65, Padam Singh Road, Karol Bagh, New Delhi-110005, Ph.: 011-46465263, 9810449799

Borrower: Ramesh Kumar, C/o Piyush Enterprises 2269/71, Room No 10, Ilnd Floor, Gali Raghunandan, Delhi 100006

Notice is hereby given to the persons mentioned below that the proceedings for classification as fraud as per RBI Master Directions on Fraud - Classification and Reporting by Commercial Banks and select FI's dated July 01, 2016 ('Master Directions'), has been initiated and the Show Cause Notice issued by the Bank to the following persons has been returned un-served.

Name	Address	Designation (Borrower/Promoter/Director /Partner/Proprietor/Accomplice.)
Ramesh Kumar C/o Piyush Enterprises	2269/71, Room No. 10, IInd Floor, Gali Raghunandan Delhi - 100006	Proprietor

The above persons, if they so desire, (a) may immediately collect the copy of the Show Cause Notice either in person or by duly authorized person by producing proof of identity, from the undersigned at the address as given above. (b) may Show Cause within 10 days from the date of publication of this notice as to why their name should not be classified as fraud in terms of Master Directions and subsequent actions be taken. Date: 21st June 2024

Place: New Delhi

(DGM Retail Recovery New Delhi)

IDBI BANK SHOW CAUSE NOTICE

Ground Floor, 4/65, Padam Singh Road, Karol Bagh, New Delhi-110005, Ph.: 011-46465263, 9810449799 Borrower: Amit Kumar, C/o Amit Kumar and Sons,

2734, Ilnd Floor, Gali Raghunandan Delhi 100006 Notice is hereby given to the persons mentioned below that the proceedings for classification as fraud as per RBI Master Directions on

Fraud – Classification and Reporting by Commercial Banks and select FI's dated July 01, 2016 ('Master Directions'), has been initiated and the Show Cause Notice issued by the Bank to the following persons has been returned un-served.

Name	Address	Designation (Borrower/Promoter/Director /Partner/Proprietor //Accomplice.)	
Amit Kumar, C/o Amit Kumar and Sons	lind Floor, Gali Raghunandan Delhi 100006	Proprietor	
The above persons, if they so desire, (a) may immediately collect the			

copy of the Show Cause Notice either in person or by duly authorized person by producing proof of identity, from the undersigned at the address as given above. (b) may Show Cause within 10 days from the date of publication of this notice as to why their name should not be classified as fraud in terms of Master Directions and subsequent actions

Date: 21st June 2024 Place: New Delhi

Sd/ (DGM Retail Recovery New Delhi)

BEFORE THE REGISTRAR OF COMPANIES, DELHI & HARYANA In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13(3), and Rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009

In the matter of AYUSHI AND POONAM ESTATES LLP having its registered office at 208, Okhla Industrial Estate, Phase - III, Okhla Industrial Estate, South Delhi, New Delhi, Delhi, India, 110020 and

having LLPIN: AAG-8538 Notice is hereby given to the general public that AYUSHI AND POONAM ESTATES COMPANIES ("the LLP") proposes to make application to the Registrar of Companies, Delhi & Haryana under Section 13(3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission for shifting the Registered Office of the LLP from "the National Capital Territory of Delhi" to "the State of Haryana" within the jurisdiction of Registrar of Companies, Delhi & Haryana.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by registered post their objections supported by an affidavit stating the nature of their interest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registrar of Companies, 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi -110019, Delhi & Haryana, India within Twenty One days from the date of publication of this Notice with a copy to the applicant LLP at its registered office at the address mentioned below:

208, Okhla Industrial Estate, Phase - III, Okhla Industrial Estate, South Delhi, New Delhi, Delhi, India, 110020

For and on behalf of the Designated Partners

Ayushi And Poonam Estates LLP

Name Shwetank Singh Designation: Designated Partner DIN 02976637 Add

Raheia Tower, Plot No. C-30, Block G, Next to Bank of Baroda, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051

Date: June 18, 2024 Place: Mumbai

CAN FIN HOMES LTD SCO-3, 1st Floor, Sector-14, Sonepat-131001 Ph: 0130-2235101 M. 7625079179 Email: sonepat@canfinhomes.com CIN NO. L85110KA1987PLC008699 **DEMAND NOTICE**

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No. 54 of 2002)"

Under Section 13 (2) of "The Securitisation and Reconstruction of Financial

1. Mrs. Davawanti W/o Dharampal (Borrower) VPO-Chidana (52) Teh. Gohana Distt. Sonepat Harvana-131001 Mob:-9812072004.

2. Mr. Jitender Kumar S/o Dharampal (Co-Borrower) VPO- Chidana (52) Teh. Gohana Distt. Sonepat Haryana-131001 Mob:-9812072004.

No. 1 & 2 amongst you have availed a housing loan from our branch against the security of mortgage of the following asset belonging to No.1. An amount of Rs. 2,93,906/- (Rupees Two Lakh Ninety Three Thousand Nine Hundred Six Only) is due from you, to Can Fin Homes Ltd. as on 31.05.2024 together with future interest at the contracted rate.

DETAILS OF THE MORTGAGED ASSET A Plot having an extent area of 150 Sq. Yds of property situated at KILLA NO 288/12/2,14/2,16,17,18,19 SITUATED IN MOUJA GUDA CHOPRA COLONY GOHANA WITH IN MC LIMIT GOHANA TEHSIL GOHANA & DISTRICT SONIPAT 131301 The boundaries of the property are as under

North :- Gali 20' Wide., East:-Plot of Digran.

Date: 20.06.2024

Place: Sonepat

South: House of Jai Bhagwan and plot of Digran, West:-Plot of Digran

Registered demand notice was sent to Nos. 1 - 2 amongst you under Section 13(2) of the SARFAESI Act, 2002, but the same was returned unserved. The undersigned has therefore, caused these Notices to be pasted on the premises of the last known addresses of the said Borrower/s as per the said Act. Hence this paper publication. As you have failed to adhere to the terms of the sanction, the account is classified as a Non Performing Asset on NPA 29.05.2024 as per the NHB Guidelines. You are hereby called upon to pay the above said amount with contracted rate of interest thereon from 31.05.2024 DEMAND NOTICE within 60 days from the date of this notice, failing which the undersigned will be constrained to Initiate action under SARFAESI Act to enforce the aforesaid security. Further, the attention of borrowers / quarantors is invited to the provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to them to redeem the secured assets. ----Sd---

Authorised Officer Can Fin Homes Ltd. financialexp.epapr.in PUBLIC NOTICE

(Under Section 102 (1) & (2) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MS ITI AGARWAL **DEBTOR /PERSONAL GUARANTOR** RELEVANT PARTICULARS Name of Debtor/Personal Guarantor MS. ITI AGARWAL Address of the Debtor/Personal Guaranton W-39, Greater Kalash Part-II, New Delhi-110048 Details of order and Insolvency CP No. (IB)-122/ND/2023, and commencement date in respect of Debtors/ IA No. 1034/ND/2024. Order Dated 12.06.2024

Personal Guarantors to Corporate (Copy received on 20.06.2024) Name and registration number of the Rajiv Malik Insolvency Professional acting as Regn No.: IBBI/IPA-002/IP-N00391/2018-2019/12115 Resolution Professional AFA Valid Upto: 30.06.2025 Address and e-mail of the Resolution B-7/18, Mianwali Nagar Delhi-110 087 Professional, as registered with the Board Email: iprmalik2009@gmail.com B-7/18, Mianwali Nagar Delhi-110 087 Address and e-mail to be used for correspondence with the Resolution Email: iprmalik2009@gmail.com

Last date for submission of claims 11.07.2024 Relevant Forms in which claim to "FORM B" Web link: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Bench II, New Delhi has ordered the commencement of an Insolvency Resolution Process of Ms. Iti Agarwal, Debtor /Personal Guarantor on 12.06.2024.

The creditors of Ms. Iti Agarwal, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 11.07.2024 to the Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 6. The creditors shall submit their claims with proof by electronic means or with proof in person, by post or by

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Rajiv Malik Resolution Professional for Ms. Iti Agarwal-PG, PG to CD Date : 21.06.2024

Regn. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00391/2018-2019/12115 Place: New Delhi

TALBROS

TALBROS ENGINEERING LIMITED CIN: L74210HR1986PLC033018

Regd. Office: Plot No. 74-75-76, Sector-6, Faridabad, Haryana - 121006 Telephone: +91-129-4284300, Fax: +91-129-4061541 Email: cs@talbrosaxles.com, Website: www.talbrosaxles.com

and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government.

Suspense Account in the name of the Company.

NOTICE TO SHAREHOLDERS (For transfer of shares to Investor Education and Protection Fund)

As per Section 124(5) of the Companies Act, 2013, any dividend remaining unpaid/unclaimed for a period of 7 (seven) years is required to be transferred by the Company to the Investor Education

Further, Section 124(6) requires that all shares in respect of which unpaid/unclaimed dividend has been transferred to IEPF, shall also be transferred to IEPF. Ministry of Corporate Affairs has notified "Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016". The said Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid/claimed for seven consecutive years or more, in the name of IEPF Suspense Account.

As per our records, the dividends which were paid/remitted to you in the last 7 (seven) years (with reference to Final dividend for the year 2016-17 onwards) remain unpaid/unclaimed as on date. We request you to claim the above dividends due to you by making an application immediately

and send it to the Company reaching us on or before October 15, 2024. In case you fail to claim the above dividend, all your shares (whether held in physical or electronic form) will be transferred as per the said Rules by the Company to IEPF Suspense Account in the name of the Company. As per the above-mentioned Rules, shares held in physical form are liable to be

issue of such duplicate share certificates, the original share certificate(s) which stand registered in your name will be deemed cancelled and non-negotiable. in case shares are held in demat form and are liable to be transferred to IEPF Suspense Account. the Company will give Delivery Instruction Slip to the Depository for transfer of shares to IEPF

in case we do not hear anything from you on this intimation letter by October 15, 2024, we shall, with a view to complying with the requirements of the said Rules, transfer the shares to IEPF Suspense Account in the name of the Company by the due date as per procedure stipulated in the Rules, without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company or against the Registrar and Transfer Agents of the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF Authority/Suspense Account in the name of the Company pursuant to the said Rules.

Please feel free to contact the Company, in case you have any queries at the following address/email/telephone number

Company Secretary & Compliance Officer | Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. Talbros Engineering Limited Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Plot No. 74-75-76, Sector-06. Behind Local Shopping Center, Faridabad, Haryana-121006 New Delhi - 110062 Phone No.: 0129-4284314 Phone No.: 011-29961281-282 Email: cs@talbrosaxles.com Email: beetalrta@gmail.com

For Talbros Engineering Limited (Anuj Gupta) Company Secretary

MGF THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED

CIN No.:L74899DL1930PLC000208 REGD. OFFICE: MGF House, 4/17-B, Asaf Ali Road, New Delhi-110002 Phone No.: 23272216-18, 23276872 E-mail: mgfltd@ hotmail.com Website: http://www.mgfltd.com

Email ID for UPSI Information - mgf.pit1930@gmail.com GST No.: 07AAACT2356D2ZN NOTICE OF POSTAL BALLOT AND

REMOTE E-VOTING

Members of The Motor & General Finance Limited are hereby informed that pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 and various Circulars issued by MCA in this regard (Circular No. 11/2022 dated 28.12.2022) and Regulation 30 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements)Regulations,2015(Listing Regulations) and other applicable laws, rules the company is seeking approval of members of the company through Postal Ballot by voting through electronic means ("remote e-voting") on the following items :-

SI No.	Description of Resolution	Type of Resolution
1.	Resolution under Section 180(1)(a) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 authorising the Board to sell, lease, transfer or otherwise dispose of undertaking in the Commercial Project of the company situated at MGF Market Place, Shalimar Place, New Delhi-110088	Special Resolution
2.	Resolution under Section 180(1)(a) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 authorising the Board to sell, lease, transfer or otherwise dispose of undertaking in respect of property situated at A-30, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044	Special Resolution
3.	Resolution under Section 180(1) (c) of the Companies Act, 2013 regarding authority to the Board to borrow money	Special Resolution

instructions have been sent to the members through electronic mode on Thursday, the June 20,2024 to the members whose names are recorded in the register of members or beneficial owners maintained by Registrar and Share Transfer Agent (RTA) and Depositories on Friday, June 14, 2024 (Cut off date). The voting rights of the members shall be in proportion to the shares held by them as on cut off date. This Notice is also available on the website of the company www.mgfltd.com; website of the BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com and on website of CDSL at www.evotingindia.com The company has appointed Ms. Anjali Yaday (M No. FCS No. 6628 & CP

The Postal Ballot Notice, Explanatory Statement and e-voting

No.7257) Practising Company Secretary as Scrutinizer for conducting the remote-evoting process through Postal Ballot in a fair and transparent manner.

The company has engaged the services of CDSL to provide remote e-voting facility. The company has fixed Friday, June 14, 2024 as the (Cut off date) to ascertain the eligibility of members to vote by remote e-voting. The remote e-voting facility will be available during the following

Commencement of Remote e-voting	Monday, the June 24, 202 at 9.00 a.m.		
End of Remote e-voting	Tuesday, the July 23, 2024 a 5.00 p.m.		
EVSN	240613005		

E-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Tuesday, the July 23, 2024 and the e-voting module shall be disabled by CDSL and members will not be allowed to vote thereafter. Shareholders who have not registered their email address with the

RTA may provide the necessary details to the company at mgfltd@hotmail.com. For physical shareholders and for demat shareholders, please update your email ID and mobile number with your respective Depository Participants.

If you have queries or issues regarding remote e-voting from the CDSL evoting system for e-voting user manual for shareholders is available at www.e-votingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free number: 1800225533 or rta@alankit.com. In case of any assistance, you may call on 07428906969/09899889227. The results of the Postal Ballot shall be declared within two working days

from the close of remote e-voting and shall be uploaded on the website of

the company and will be communicated to BSE, NSE and CDSL. By Order of the Board For THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED

(M.K. MADAN) **VP,CS & COMPLIANCE OFFICER** Place: New Delhi M. No. ACS-2951 Date: June 20,2024

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT SHARE CERTIFICATE(S) NO. 38 TO 41 / 20689 TO 20690 / 32668 FOR 1200 EQUITY SHARES OF RS. 10 /- (RUPEES TEN ONLY) EACH BEARING DISTINCTIVE NOS 1047971 To 1048170 / 3116631 To 3116830 / 8326101 To 8326900 OF SWARAJ ENGINES LTD. REGISTERED IN THE NAME OF SHASHIKANT VASUDEO BARVE HAS/HAVE BEEN LOST HAS/HAVE APPLIED TO THE COMPANY TO ISSUE DUPLICATE CERTIFICATE(S). ANY PERSON WHO HAS/HAVE ANY CLAIM IN RESPECT OF THE SAID SHARES CERTIFICATE(S) SHOULD LODGE SUCH CLAIM WITH THE COMPANY AT ITS REGISTERED OFFICE: PHASE-IV, INDUSTRIAL AREA, S.A.S. NAGAR, MOHALI, PUNJAB 160055, WITHIN 15 DAYS OF THE PUBLICATION OF THIS NOTICE, AFTER WHICH NO CLAIM WILL BE ENTERTAINED AND THE COMPANY WILL PROCEED TO ISSUE DUPLICATE SHARE CERTIFICATE(S).

Name(s) of Shareholder(s) Date: 20-06-2024 SHASHIKANT VASUDEO BARVE Place: Pune

EXPLO MEDIA PRIVATE LIMITED IN LIQUIDATION CIN U74300DL2002PTC117725

PUBLIC INFORMATION FOR LOST DOCUMENTS

This company is undergoing liquidation. While inspecting the

original mortgaged documents of property owned by company, with the bank on 9th May 2024, it was found that the below mentioned documents are not traceable. Subsequently it was gathered that these may have been misplaced in the past while transiting from one bank to another bank. The details of the documents are as below: -

- Allotment / Possession Letters in original
- Payments Receipts in original.
- Other miscellaneous documents related to above.

The above-mentioned documents are in respect of the company office at 524 - 525 at Paras Trade Centre, Gwalpahari, Gurgaon, Haryana - 122003.

The founder of the above documents is requested to return them and contact the liquidator at the given contact details.

For Explo Media Private Limited - In Liquidation Rakesh Takyar, Liquidator

IBBI/IPA-001/P-00160/2017-18/10329 Mob:-9868503531, Off:-011-35000319

Email: cirp.explomedia@gmail.com / rtakyar.rt@gmail.com

Date: June 21, 2024 transferred to IEPF Suspense Account, by issuing duplicate share certificates and upon Place: New Delhi

Bank of India

RAI Branch: GT Road, V.P.O. Rai Sonipat (Haryana)-131029

APPENDIX-IV [See rule-8(1)] POSSESSION NOTICE (for immovable property) Whereas, the undersigned being the authorized officer of the BANK OF INDIA under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 12.12.2022 calling upon the borrower Shri Bhagwan S/O Sh. Balu Ram and guarantor Mr. Sukhbir Singh to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 789873.00 Plus intt. (in words: Seven Lakhs Eighty Nine thousand Eight Hundred

& Seventy three only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 18th day of June of the year 2024;

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the BANK OF INDIA for an amount Rs.789873.00 Plus intt. (in words: Seven Lakhs Eighty Nine thousand Eight Hundred & Seventy three only) and interest thereon. The borrower's/ Guarantor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Balu Ram, Bounded; On the North by- Gali Rasta 18ft, On the South by-Inderjeet Saw

All that part and parcel of the property consisting of residential Property measuring 100 Sq. Yds. Comprised in Khewat No.204//338, Khata No.231, Plot No.202, Vill-Assawarpur, Tah-Rai, Distt-Sonepat owned and possessed by Sh. Bhagwan S/O Sh

13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Mill, On the East by-Plot of Chander Bhan, On the West by-Plot of Jai Bhagwan Date: 18-06-2024, Place: Rai

Authorised Officer, Bank of India

Bank of India

RAI Branch: GT Road, V.P.O. Rai

Sonipat (Haryana)-131029 APPENDIX-IV [See rule-8(1)] POSSESSION NOTICE (for Immovable property) Whereas, the undersigned being the authorized officer of the BANK OF INDIA under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with

rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated

12.12.2022 calling upon the borrower Shri Bhagwan S/O Sh. Balu Ram and Co-

applicant Ms. Jyoti W/O Shri Bhagwan to repay the amount mentioned in the notice

being Rs. 5,69,331.64 + intt. w.e.f 30.08.2022 (in words: Five Lakhs Sixty Nine Thousand three hundred & thirty one paise Sixty Four Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of

section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 18th day of June of the year 2024; The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the BANK OF INDIA for an amount Rs.569331.64 + intt. w.e.f 30.08.2022 (in words: Five Lakhs Sixty Nine Thousand three hundred & thirty one paise Sixty Four Only) and

The borrower's/ Guarantor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section

13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the property consisting of residential Property measuring 132 Sq. Yds. And 104 Sq. yds. Comprised in Khewat No.76//59, Khata No.90, Rect and Killa No. 32//10/1/2(0-8), 11/2(0-8), 20/1 (0-2), 33//8/1/1/2(2-9), 9/2/1(0-8), 12/1 (0-8). 58//7 (1-1), 12(0-8), 13(0-10), 15 (0-9) situated in revenue estate of Vill-Bhora Rasulpur, Tah-Ganaur, Distt-Sonepat owned & possessed by Sh. Bhagwan S/O Sh. Balu Ram and Smt. Jyoti W/O Shri Bhagwan, Bounded as ; On the North by- Other's Plot, On the South by-Kirana Store, On the East by-Other's Plot, On the West by-Ganaur

Bank of India

Date : 18-06-2024, Place: Rai

RAI Branch: GT Road, V.P.O. Rai Sonipat (Haryana)-131029

APPENDIX-IV [See rule-8(1)] POSSESSION NOTICE (for immovable property) Whereas, the undersigned being the authorized officer of the BANK OF INDIA under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 12.03.2024 calling upon the borrower Mrs. Raisa W/O Anwar Khan, Mr. Anwar Khan S/O Saneddin and Mohammad Zahid S/o Anwar Khan to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 24,68,159/- + Intt. W.e.f (in words: Twenty Four Lakhs Sixty Eight Thousand One Hundred Fifty Nine Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 18th day of June of the year 2024; The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the BANK

OF INDIA for an amount Rs.24,68,159/-+ intt. w.e.f 29.12.2023 (in words: Twenty Four Lakhs Sixty Eight Thousand One hundred Fifty Nine Only) and interest

The borrower's Guarantor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY Residential Property of area admeasuring 183 Sq. Yds. i.e. Malra comprised in

Khewat No.100 (New Khewat No.108/100), Khata No.141 (New Khata No.149), situated in revenue estate of Kundli, Sonepat, Haryana owned & possestsed by Smt. Raisa W/O Sh. Anwar Khan, Bounded; On the North by-Street, On the South by-Other's Vacant Plot, On the East by-H. No.57 of Sunil, On the West by-H. No.59 of Owner Date: 18-06-2024, Place: Rai Authorised Officer, Bank of India

New Delhi

जनसता

परिशिष्ट - फॉर्म ए

सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए

दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत)

एएसपी सीलिंग प्रोडक्ट्स

लिभिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

यह **एएसपी सीलिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड** के मामले में फाइनेंशियल एक्सप्रेस – अंग्रेजी

और जनसत्ता – हिंदी में प्रकाशित दिनांक 13 जून 2024 की सार्वजनिक घोषणा के

संदर्भ में है। आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सार्वजनिक घोषणा में बिंद्

संख्या 10 में उल्लिखित ई–मेल आईडी वर्तमान में तकनीकी कारणों से चालू नहीं है

एएसपी सीलिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के लेनदारों से अनुरोध है कि वे 25 जून, 2024 को

या उससे पहले अंतरिम समाधान पेशेवर को ईमेल आईडी–cirpasps@gmail.com पर

आईबीबीआई पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-002/1P-N00541/2017-2018/11618

केन फिन होम्स लि.

एससीओ-3, प्रथम तल, सेक्टर-14, सोनीपत-131001,

फोनः 0130-2235101, मो. 7625079179,

ईमेल: sonepat@canfinhomes.com CIN NO. L85110KA1987PLC008699

इसलिए, नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त मामले में नई ईमेल आईडी

अंतरिम समाधान पेशेवर

प्राधिकृत अधिकारी

केन फिन होम्स लिमिटेड

एएसपी सीलिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के मामले में

फोनः +91 11 43579200,

फैक्सः +91 11 23355824 ईमेलः info@kplini.com, वेबसाइटः www.kplintl.com ाद्दवारा सूचना दी जाती है कि केपीएल इंटरनेशनल लिमिटेड ('कंपनी') उन सभी शेयरों व वेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करेगी, जिसके संबंध में लाभांः गातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक अवैतनिक या दावा न किया गया हो, कंपर्न मधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण

नेखा. लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के साथ पढ़ा जाए। ('आईईपीए

नेयम')। उक्त शेयर उन शेयरधारकों के हैं. जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2016—17 और उसके बाद

किसी भी वर्ष के लिए लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का दावा नई इसके अलावा यह भी सचित किया जाता है कि कंपनी ने उन शेयरधारकों के नवीनतम उपलब ातों पर पहले ही विशिष्ट संचार भेज दिया है जिनके लाभांश पिछले सात (7) लगातार वर्ष ।। उससे अधिक समय से बिना दावे के पड़े हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ आईईपीएफ

o) हस्तांतरित किए जा रहे शेयरों का विवरण भी शामिल है। भाईईपीएफ नियम) के नियम 6(3) के तहत शेयरधारकों द्वारा सूचना और आवश्यक कार्रवा लिए नाम, पता, फोलियो संख्या और हस्तांतरण के लिए देय इक्विटी शेयरों की संख्या क रा विवरण देने वाला विवरण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इसका वेब—लिंक nttp://kplintl.com/images/UD%202016-17-pdf ਵੈ |

मधिक जानकारी के लिए या अवैतनिक/अदावा किए गए लाभांश का दावा करने के लि मंबंधित शेयरधारक रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं: आरसीएम_{ें} शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, बी—25 / 1, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज— ाई दिल्ली—110020, दुरभाष संख्या +91 11 26387320, फैक्सः +91 120 2444346, ई—मेल hare@rcmcdelhi.com या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सुश्री करिश्मा, कंपनी सचिव र संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने अप्राप्त / अप्रदत्त लाभांश राशि (राशियों)

ग्रा उससे अधिक समय से अप्राप्त / अप्राप्त पड़े हैं, उन्हें आईईपीएफ नियमों के लागू प्रावधान हे अनुसार आईईपीएफ सस्पेंस खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, विज्ञापन की तिथि रं महीने पुरे होने पर आईईपीएफ सस्पेंस खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह भी ध्या देया जाना चाहिए कि उपरोक्त शम्स के संबंध में अर्जित होने वाले सभी बाद के कॉर्पोरेट लाभ भी उक्त आईईपीएफ सस्पेंस खाते में जमा किए जाएंगे। यदि संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ में स्थानांतरण के बाद शेयरों का दावा करना चाहते

रावा करें, ऐसा न करने पर जिन शेयरों के संबंध में लाभांश पिछले सात (7) लगातार वर्

ं, तो आईईपीएफ नियमों के तहत निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ–5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को एक अलग आवेदन करना होगा और यह आईईपीएफ वेबसाइट www.iepf.gov.i: बोर्ड के आदेश र

> हस्ता /-करिश्रमा कंपनी सचिव

वैभव ग्लोबल लिमिटेड

बुक क्लोजर की सूचना एतदद्वारा मुचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधानों व इसके तहत बनाये गये नियमों एवं सेबी विनियमों के अनुसार सुचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर 35वीं वार्षिक साधारण सभा व विलीय वर्ष 2023-24 के अन्तिम लाभांष के उद्देश्य सं शनिवार, दिनांक 29 जून, 2024 को बन्द रखा जायेगा तथा इसका भूगतान यदि वार्षिक साधारण

दिनों के भीतर किया जायेगा। सेबी ने निर्धारित किया है कि सभी सुबीबद्ध कंपनियां शेयर धारकों को भगतान करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष भगतान, एनईएफटी, आरटीजीएस, 'पेयबल-एट-पार' वारंदस/ चैक्स इत्यादि के भगतान के लिए अनुमोदित माध्यम का उपयोग करेगी। सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे तुरन्त अपने बैंक खाता संख्या को कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेन्ट या डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपडेट करें।

ध्धान : जयपुर दिनांक : 20 जून, 2024 यह सूचना अंग्रेजी प्रारूप का रूपांतरण है।

सशील शर्मा (कंपनी सचिव)

RAJMATA VIJAYARAJE SCINDIA KRISHI VISHWA VIDYALAYA, GWALIOR (M.P.) Dated: 20/06/2024

No./IPRO/DFA/NRIAdv./2024-25/459 ADMISSION NOTICE (SECOND)

Indian (NRI) candidates for admission in B.Sc. (Hons.) Agriculture & B.Sc. (Hons.) Horticulture degree programmes for the academic

Name of Degree programme No. of Seats B.Sc. (Hons.) Agriculture 11

B.Sc. (Hons.) Horticulture

Marg, Gwalior-474002 (M.P.) on or before 15/07/2024 (Monday) upto 5:00 P.M. General information and NRI proforma are available at our Dean Faculty of Agriculture

एक्स्प्लो मीडिया प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में) CIN: U74300DL2002PTC117725

गुमशुदा दस्तावेजों के लिये सार्वजनिक सूचना

ऊपर वर्णित दस्तावेज कम्पनी के कार्यालयः 524-525, पारस ट्रेड सेन्टर,

यदि उक्त दस्तावेज किसी को मिले तो उनसे आग्रह है कि उसे वापस लौटा दें

कृत्ते, एक्स्प्लो मीडिया प्राईवेट लिमिटेड-परिसमापन में

राकेश टकयार, परिसमापक

IBBI/IPA-001/P-00160/2017-18/10329

मो.: 9868503531, कार्या: 011-35000319

इमेल: cirp.explomedia@gmail.com/rtakyar.rt@gmail.com

तिथि: 21 जून, 2024 स्थान: नई दिल्ली

टैल्ब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड सीआईएन : L74210HR1986PLC033018

पंजीकत कार्यालयः प्लॉट नंबर 74-75-76, सेक्टर-6, फरीदाबाद, हरियाणा - 121006 टेलीफोनः +91-129-4284300, फैक्सः +91-129-4061541 ईमेलः cs@talbrosaxles.com, वेबसाइटः www.talbrosaxles.com शेयरधारकों को सूचना

(निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में शेयरों के हस्तांतरण के लिए)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के अनुसार, 7 (सात) वर्षों की अवधि के लिए गैर भुगतान

लाभांश आईईपीएफ में स्थानांतरित किया गया है, उन्हें भी आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने "निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016" अधिसुचित किया है। उक्त नियमों में, अन्य मामलों के साथ–साथ, उन सभी शेयरों के हस्तांतरण के प्रावधान हैं जिनके संबंध में आईईपीएफ सस्पेंस खाते के नाम पर लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भगतान / दावा नहीं किया

आपको जो लाभांश का भगतान / प्रेषण किया गया था. वह आज की तिथि तक गैर भगतान / अदावा

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप तुरंत एक आवेदन करके अपने देय उपरोक्त लाभांश का दावा करें और इसे 15 अक्टबर, 2024 को या उससे पहले कंपनी को भेजें। यदि आप उपरोक्त लाभांश का दावा करने में विफल रहते हैं, तो आपके सभी शेयर (चाहे भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हों) कंपनी द्वारा उक्त नियमों के अनुसार कंपनी के नाम पर आईईपीएफ सस्पेंस खाते में स्थानांतरित कर दिए

होने पर, आपके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र रद्द और गैर–परक्राम्य माने जाएंगे। यदि शेयर डीमैट फॉर्म में रखे गए हैं और आईईपीएफ सस्पेंस खाते में स्थानांतरित किए जाने योग्य हैं, तो कंपनी

कंपनी के नाम पर आईईपीएफ सस्पेंस खाते में शेयरों के हस्तांतरण के लिए डिपॉजिटरी को डिलीवरी

यदि आपके कोई प्रश्न हों, तो कृपया निम्नलिखित पते / ईमेल / टेलीफोन नंबर पर कंपनी से संपर्क करने में संकोच न करें: कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट

टैल्ब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड, प्लॉट संख्या लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे. नई दिल्ली - 110062

> टैल्ब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड के लिए हस्ता /-(अनुज गुप्ता)

कंपनी सचिव

निविदा शुद्धि पत्र पत्रांक- ७ ग्रा०नि०वि०/दो-लेखा/निविदा/2024-25/दिनांक 19/06/2024 इस कार्यालय के निविदा सुचना पत्रांक सं० 05/ग्रा०नि०वि०/ दो-लेखा/निविदा/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के द्वारा आमंत्रित निविदा, जो दिनांक 24.06.2024 को सायं 4:00 बजे तक विक्रय कर दिनांक 25.04.2024 को 2:00 बजे आमंत्रित कर उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे खोली जानी है के क्र॰ सं॰ 02 में अंकित कार्य की अनुमानित लागत रू0 2.87 लाख के स्थान पर 2.71 लाख, क्रं० सं० 13 में अंकित कार्य की अनुमानित लागत रू0 4.75 लाख के स्थान पर 4.35 लाख तथा क्र॰ सं॰ 15 में अंकित कार्य की अनुमानित लागत रू० 4.75 लाख के स्थान पर 5.94 लाख एवं धरोहर धनराशि रू० 9500.00 के

स्थान पर रू० 12000.00 पढ़ा जाय। शेष शर्ते यथावत रहेंगी। हस्ता./-सहायक अभियन्ता, (वि०यॉ०) ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल-नैनीताल।

Housing Finance Ltd.

(भारत)— 311802

फोन नं.–9351040617

सेटिन हाउसिंग फाइनेंस लिभिटेड कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर ४९२, उद्योग विहार, फेज-३ गुरूग्राम हरियाणा-122016, पंजीकृत कार्यालयः 5वीं मंजिल, कुंदन भवन, आजादपु

HE ANSWER IS HOME वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित। नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने को निर्गत किया गया है, जो नीचे भी दिए गए

	उल्लिखित देय राशि का भुगतान करने व से 60 दिनों के भीतर, नीचे दर्शाई गई रा तिथि(ओं) से लेकर भुगतान और/या वर	हें लिए नोटिस दिया ज शि, साथ ही उक्त डिमां तूली की तिथि तक, उत्त	र से धारा के तहत दिनांक 10.06.2024 के नोटिस में ाता है। धारा 13(2) के अनुसार, इस नोटिस के प्रकाशन ड नोटिस(ओं) में वर्णित अतिरिक्त ब्याज, नीचे उल्लिखत ठ उधारकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों / लेखो उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित
			ा फाइनेंस लिमिटेड को गिरवी रखा गया है।
1	उधारकर्ता(यों) /गारंटर (यों)	मांग राशि	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति)
	का नाम		का विवरण
1	सांगी सुथार पुत्र भंवर लाल (उधारकर्ता)	मांग सूचना की	प्लॉट नंबर 12 पर स्थित संपत्ति, खसरा नंबर 188 / 27
ı	1. भवर लाल पुत्र प्रेमा राम 2. शांति देवी	तिथि : 10.06.2024	का हिस्सा, अशोक विहार, फलोदी तहसील फलोदी
- 1			
ı	पत्नी भंवर लाल (सह—उधारकर्ता)	₹. 8,81,770/-	जिला जोधपुर, राजस्थान, माप 25 फीट X 46.5 फीट
	पत्नी भंवर लाल (सह—उधारकर्ता)	रु. 8,81,770/— (रुपये आठ लाख	जिला जोधपुर, राजस्थान, माप 25 फीट x 46.5 फीट

(उधारकता) रामी देवी पत्नी भेरू लाल तिथि : 10.06.2024 वर्ग फीट (पूर्व की ओर = 52' फीट, पश्चिम- 52' **र. 6,36,703/-** फीट उत्तर— 26' फीट, दक्षिण— 26' फीट), पट्टा संख्या (सह—उधारकती) 10, आबादी क्षेत्र, गांव महेंद्रगढ़, ग्राम पंचायत महेंद्रगढ़, पताः 220, बेरावा का मोहल्ला, महेंद्रगढ़ (रुपये छह लाख

पंचायत समिति सहाड़ा, जिला- भीलवाड़ा में स्थित छत्तीस हजार सात भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, महेंद्रगढ़ है। **निम्नानुसार सीमाः पूर्व**– श्री सोहन पुत्र श्री मांगी सौ तीन मात्र) 10 बी.ओ., भीलवाड़ा, राजस्थान, लाल गाडोलिया का मकान, पश्चिम- श्री किशन लाल मई 2024 तक। पुत्र श्री नंदराम बैरवा का मकान, उत्तर में श्री पन्ना लाल पत्र रामलाल भांबी का मकान, दक्षिण-आम रास्ता। पंजीकृत दिनांक— 23 / 12 / 2020, पुस्तक संख्या 1 खंड संख्या 103, पृष्ट संख्या १३१ क्रमांक २०२००३०२८१०२७६२

लेमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी ारह से उक्त उधारकर्ताओं के लागत और परिणामों के जोखिम पर होगी। उक्त उधारकर्ताओं को अधिनियम के तहत **सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, वह अधिनियम के तहत दिए गए कारावास औरध्या दंड के लिए उत्तरदायी होगा। दिनांकः 20.06.2024 सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED CIN No.:L74899DL1930PLC000208

: MGF House, 4/17-B, Asaf Ali Road, New Delhi-110002 Phone No.: 23272216-18, 23276872 E-mail: mgfltd@ hotmail.com Website: http://www.mgfltd.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND

Members of The Motor & General Finance Limited are hereby informed that pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 and various Circulars issued by MCA in this regard(Circular No. 11/2022 dated 28.12.2022) and Regulation 30 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements)Regulations, 2015(Listing Regulations) and other applicable laws, rules the company is seeking approval of members of the company through Postal Ballot by voting through electronic means ("remote e-voting") on the following items :-

SI No.	Description of Resolution	Type of Resolution
1.	Resolution under Section 180(1)(a) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 authorising the Board to sell, lease, transfer or otherwise dispose of undertaking in the Commercial Project of the company situated at MGF Market Place, Shalimar Place, New Delhi-110088	Special Resolution
2.	Resolution under Section 180(1)(a) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 authorising the Board to sell, lease, transfer or otherwise dispose of undertaking in respect of property situated at A-30, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044	Special Resolution
3.	Resolution under Section 180(1) (c) of the Companies Act, 2013 regarding authority to the Board to borrow money	Special Resolution

The Postal Ballot Notice, Explanatory Statement and e-voting instructions have been sent to the members through electronic mode on Thursday, the June 20,2024 to the members whose names are recorded in the register of members or beneficial owners maintained by Registrar and Share Transfer Agent (RTA) and Depositories on Friday, June 14, 2024 (Cut off date). The voting rights of the members shall be in proportion to the shares held by them as on cut off date. This Notice is also available on the website of the company www.mgfltd.com; website of the BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com and on

manner.

The company has engaged the services of CDSL to provide remote e-voting facility. The company has fixed Friday, June 14, 2024 as the (Cut off date) to ascertain the eligibility of members to vote by remote e-voting. The remote e-voting facility will be available during the following

Commencement of Remote e-voting	Monday, the June 24, 2024 at 9.00 a.m.
End of Remote e-voting	Tuesday, the July 23, 2024 at 5.00 p.m.
EVSN	240613005

E-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Tuesday, the July 23, 2024 and the e-voting module shall be disabled by CDSL and members will not be allowed to vote thereafter.

Shareholders who have not registered their email address with the RTA may provide the necessary details to the company at mgfltd@hotmail.com. For physical shareholders and for demat shareholders, please update your email ID and mobile number with your

If you have queries or issues regarding remote e-voting from the CDSL evoting system for e-voting user manual for shareholders is available at www.e-votingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free number :1800225533 or rta@alankit.com. In case of any assistance, you may call on

the company and will be communicated to BSE, NSE and CDSL.

For THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED (M.K. MADAN) **VP.CS & COMPLIANCE OFFICER** 06 नवंबर, 2023 के अनुसार बकाया राशियों के विवरण

।। के लिए 11.25: प्रति वर्ष की दर पर ब्याज प्रभारित किया जाता है तथा स्वीकृति शतौं के अनुसार उस पर डिफॉल्ट ब्याज प्रमारित किया जाता है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवम दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई टेन्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। आर.पी डब्लयू.ए 100 की

दिनांक 14/06/2024

शर्त लाग् होगी। निविदा से संबंधित विवरण बेबसाईट http://dipr.rajasthan.gov.in/ tendrs.asp एव विभागीय बेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in http://www.pwd.rajajasthan.gov.in तथा http://sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। NIB No. PWD2425A0234 S.No. UBN NO. S.No. UBN NO. PWD2425WSOB00766 2. PWD2425WSOB00768

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता. सार्वजनिक निर्माण विभाग. खण्ड रतनगढ

ई-निविदा सूचना संख्या: 01/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जिला चुरू में निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी के

क्रमांक 348-358

हस्ता./ अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड रतनगढ

DIPR/c/4465/2024 DBI BANK कारण बताओ नोटिस

भूतल , 4/65, पदम सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005. फोनः 011- 46465263, 9810449799

उधारकर्ताः रमेश कुमार, सी/ओ पीयूष एंटरप्राइजेज 2269/71, कमरा नंबर 10, दूसरी मंजिल, गली रघुनंदन, दिल्ली 100006

निम्नलिखित व्यक्तियों को नोटिस दिया जाता है कि धोखाधड़ी-वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफआई द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2016 ('मास्टर दिशानिर्देश') द्वारा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर आरबीआई के मास्टर दिशानिर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकरण के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है और बैंक द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को जारी किया गया कार्या बनायो चोटिय बिना नामीच हम नामय कर दिया गया है।

ाकया गया कारण बताओं नाटिस बिना तामाल हुए वापस कर दिया गया है।				
नाम	पता	पदनाम (उधारकर्ता/प्रवर्तक/निदेशक/ भागीदार/मालिक/सहयोगी)		
रमेश कुमार, सी/ओ पीयूष एंटरप्राइजेज	2269/71, कमरा नंबर 10, दूसरी मंजिल, गली रघुनंदन, दिल्ली 100006	मालिक		

उपरोक्त व्यक्ति, यदि चाहें तो, (क) ऊपर दिए गए पते पर अधोहस्ताक्षरी से पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करके तुरंत कारण बताओ नोटिस की प्रति व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। (ख) इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 10 दिनों के भीतर कारण बता सकते हैं कि क्यों न उनका नाम मास्टर निर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाए और बाद में कार्रवाई की जाए।

दिनांकः 21 जून, 2024 हस्ता./-स्थानः नई दिल्ली (डीजीएम खुदरा वसूली नई दिल्ली)



स्थान : गुरूग्राम, हरियाणा

उम्मीद हाउसिंग फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड कार्पोरेट कार्यालय : यूनिट नंबर 809-815, 8वां तल, टावर-ए, एमआर डिजिटल ग्रीन्स गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर-61, गुरूग्राम (हरियाणा)-122002") सीआईएन : यू65922एचआर2016पीटीसी057984

परिशिष्ट-४ (नियम ८(१) देखें) कब्जा सूचना जबिक अधोहस्ताक्षरी ने, उम्मीद हाउसिंग फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियमावली २००२ के (नियम ३) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचनाएं यह नीचे वर्णित कर्जदार/रों को जारी की थी, जिसमें संबंधित कर्जदारों से बकाया राशि भुगतान की वास्तविक तिथि तक खर्चों सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। . उक्त कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतदृद्वार

कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा इस तिथि को ले लिया है। कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को विशेष रूप से तथा सर्व साधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि गम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करें तथा सम्पत्तियें के संबंध में कोई भी संव्यवहार उम्मीद हाउसिंग फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड की उसमें विनिर्दिष्ट बकाया राशि तथा उस पर ब्याज, लागत तथा प्रभारों का भृगतान करने के बाद ही

किया जा सकता है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कर्जदारों, सह—कर्जदारों तथा गारंटरों, प्रतिभूतियों, बकाया राशि, धारा 13(2) के तहत प्रेषित मांग सूचना और तदधीन दावित

राशि तथा कब्जा की तिथि का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है

			_
कर्जदार, सह–कर्जदार, गारंटर का नाम	प्रतिभूत आस्ति	मांग सूचना	बकाया राशि
और पता ऋण खाता सं. और ऋण राशि	का विवरण	की तिथि	रू. में
(1) राजन कुमार पुत्र किशन सिंह	सम्पत्ति के सभी अंश एवं	12 अप्रैल 2024	₹5. 5,18,542 / —
(कर्जदार) (2) आशा देवी पत्नी किशन सिंह	खंड : प्लॉट भू क्षेत्रफल		(रूपए पांच
(सह–कर्जदार)	परिमाप 33 वर्ग गज, खसरा	कब्जा	लाख अठारह
निवासी : मकान नंबर सी 2/1, खसरा नंबर	191 2009 1 8111101, 11911	की तिथि	हजार पांच सौ
2009, इकबाल कालोनी, पसोंडा, लोनी	ा ग्राम प्रसादा प्रशंना लाना	19-06-2024	बयालीस मात्र)
साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201005	तहसील एवं जिला गाजियाबा	द. चौहददी – परब	12-04-2024 तक +
एलएएन नंबर LXLAX02822-230023705	ः अन्य का प्लॉट, पश्चिम : रार	, ,,	13-04-2024 से आगे
ऋण अनुबंध तिथि : 29-03-2023	: अन्य का प्लॉट, दक्षिण : स		ब्याज और अन्य प्रभार
ऋण राशि : रू. 4,90,000 / —	ः अन्य का प्लाट, दक्षिण : स	त्यवार का प्लाट	
तिथि : 21-06-2024	³⁰ पाधिकत	त अधिकारी श्री गौ	रव त्रिपाती १६५००५५७०।

दिल्ली एवं हरियाणा के कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) तथा सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में

उम्मीद हाउसिंग फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड

आयुषी एवं पूनम एस्टेट्स एलएलपी के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय 208, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज-।।।, ओखला औद्योगिक एस्टेट, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110020 में है तथा जिसका एलएलपीआईएनः एएजी-8538 है

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आयुषी एंड पूनम एस्टेट्स कंपनीज ('एलएलपी') लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 की धारा 13(3) के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली और हरियाणा को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली और हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में 'हरियाणा राज्य' में स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधारों को बताते हुए हलफनामे द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियों को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, 4वीं मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली –110019, दिल्ली और हरियाणा, भारत को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर वितरित कर सकता है या वितरित करवा सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है, साथ ही आवेदक एलएलपी को उसके

पंजीकृत कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर एक प्रति भी भेज सकता है: 208, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज – ।।।, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110020

नामित भागीदारों आयुषी और पूनम एस्टेट्स एलएलपी की ओर से हस्ता / –

ः श्वेतांक सिंह ः नामित भागीदार पदनाम

: रहेजा टॉवर, प्लॉट नंबर सी–30, ब्लॉक जी , बैंक ऑफ बडौदा के बगल में बांद्रा कुरिया कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051

दिनांकः 18 जून, 2024 स्थानः मुंबई



आईटीकॉन्स ई-सॉल्यूशन्स लिभिटेड सीआईएन: L72900DL2007PLC163427

पंजीकृत कार्यालय : रेगस एलिगेंस 2एफ, एलिगेंस जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, ओल्ड मथुरा रोड, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110025 निगमित कार्यालय : तुतीय तल, बी-10, बजाज भवन, सेक्टर-3, जमना लाल बजाज मार्ग, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत, 201301 वेबसाइट : www.itconsinc.com, ईमेल आईडी : cs.pooja@itconsinc.com दूरभाष नं.: +91 120 4149563

आयोजित होने वाली कंपनी की असाधारण आम बैठक की सूचना सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आईटीकॉन्स ई–सॉल्य्रशंस लिमिटेड ("कंपनी") के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक ('ईजीएम') सोमवार, 15 जुलाई, 2024 को दोपहर 2.00 बजे आयोजित की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों ("अधिनियम") तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी विषय-वस्तु पर सभी लागू परिपत्रों के साथ पठित, ईजीएम

की सचना में निर्धारित अनुसार कारोबार करने के लिए. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य दश्य-श्रव्य माध्यमों

("ओएवीएम") के माध्यम से (प्रथम) ईजीएम के अनुसार संपन्न होगी।

वीडियो कॉब्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विनुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से

सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम द्वारा ईजीएम में उपस्थित हो सकेंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। विषय-वस्तु पर एमसीए और सेबी द्वारा जारी लागू परिपत्रों के अनुपालन में, ईजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट / कंपनी के पास पंजीकृत हैं। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीआर") के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत / अपडेट करें। कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ईजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ('रिमोटी-वोटिंग') प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाएं ली हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी एनएसडीएल के माध्यम से ईजीएम ('ई-वोटिंग') के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है।

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालना, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं या जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं; और (iii) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेना ईजीएम, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या ईजीएम में ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट डालने का तरीका। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ईजीएम की सुचना (जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जा रही है) में निर्धारित समस्त टिप्पणियों तथा विशेष रूप में ईजीएम से जुड़ने के निर्देशों, रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अथवा ईजीएम में ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट देने संबंधी अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट : https://www.itconsinc.com/, और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, अर्थात्

वोट डालने के तरीके— (i) ईमेल पते पंजीकत / अपडेट करने का तरीका, (ii) सदस्यों के लिए रिमोट ई—वोटिंग /

बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। कृते आईटीकॉन्स ई-सॉल्यूशन्स लिमिटेड

हस्ता./

गौरव मित्तल दिनांक : 20 जून, 2024 प्रबंध निदेशक स्थान : दिल्ली डीआईएल-01205129 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आजादपुर, नई दिल्ली-110033

दिनांक 10.06.2024 को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(यों) ('उक्त उधारकर्ता(यों)') से उन्हें

Salearii (ai) /oilece (ai)	माण सास	जुराबात जपात (जयल जपात)
का नाम		का विवरण
सांगी सुथार पुत्र मंवर लाल (उधारकती) 1. मंवर लाल पुत्र प्रेमा राम 2. शांति देवी पत्नी भंवर लाल (सह—उधारकती) पताः आई. जी. एन. पी. कॉलोनी, फलौदी, जोधपुर, नंद पुरी के पिचे, जोधपुर मुख्यालय, जोधपुर, राजस्थान, (भारत)—342001 फोन नं.— 7852012950, 9828428697	मांग सूचना की तिथि : 10.06.2024 रु. 8,81,770/— (रुपये आठ लाख इक्यासी हजार सात सौ सत्तर मात्र) 10 मई 2024 तक	प्लॉट नंबर 12 पर स्थित संपत्ति, खसरा नंबर 188/2 का हिस्सा, अशोक विहार, फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर, राजस्थान, माप 25 फीट X 46.5 फीट = 1162.50 फीट। नीचे के रूप में घिरा हुआ— पूर 20 फीट रोड, पश्चिम: अन्य की खसरा भूमि, उत्तर प्लॉट नंबर 13, दक्षिण— प्लॉट नंबर 14।06/08/201 को पंजीकृत, पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 256, पृष्ट संख्या 168, सीरियल नंबर 201803091102032
मदन सिंह पुत्र नारायण सिंह राठौर (उधारकता) 1. नाथू कनावर पत्नी मदन सिंह 2. गिरधर सिंह पुत्र नारायण सिंह (सह—उधारकता) पता: "नंगा जी का खेड़ा, भीलवाड़ा, घरटा बी.ओ., भीलवाड़ा, राजस्थान, (भारत)—311030 फोन नं.—9001570799"	मांग सूचना की तिथि: 10.06.2024 रु. 3,02,230/— (रुपये तीन लाख दो हजार दो सौ तीस मात्र) 10 मई 2024 तक	आवासीय भूखंड— पट्टा संख्या 26, माप 666 वर्ग फी: यानि 74 वर्ग गज ग्राम नंगा जी का खेड़ा, ग्रा पंचायत — जाल खेड़ा, पंचायत समिति हुरडा, जिल भीलवाड़ा, राजस्थान में स्थित है। सीमा इस प्रका है:— पूर्व— 18 फीट — लक्ष्मण लाल खाती, पश्चिम- 18 फीट — सार्वजनिक रास्ता, जत्तर— 37 फीट — गंगारा गुर्जर, दक्षिण— 37 फीट — मदन सिंह। 27.03.202 को पंजीकृत, पुस्तक संख्या 01, खंड संख्या 220, पृष् संख्या— 42, क्रमांक 202303037101137।
देवी काठात पुत्र महमूद (उधारकर्ता) सुशीला बानो पत्नी देवी काठात (सह—उधारकर्ता) पताः शेखावास, भीम, राजसमंद, राजस्थान— 305921, फोन नं.— 8107027950	मांग सूचना की तिथि: 10.06.2024 रु. 7,74,577 / – (रुपये सात लाख चौहत्तर हजार पांच सौ सतहत्तर मात्र)10 मई 2024 तक।	प्लॉट नंबर 14 खसरा नंबर 457,458,459,46 0,461 462,463,465 में, सुदामा नगर, ग्राम— कुशालपुर तहसील— ब्यावर, जिला— अजमेर में स्थित, 125 वर गज यानि 1125 वर्ग फीट (पूर्व से पश्चिम: 25 फीट उत्तर से दक्षिण: पूर्व की ओर— 45 फीट 9 इंच, पश्चिम की ओर— 44 फीट 3 इंच) नीचे से घिरा हुआ है- पूर्व: प्लॉट नंबर 15, पश्चिम: प्लॉट नंबर 13, उत्तर दूसरे का प्लॉट, दक्षिण: सड़क 30 फीट चौड़ी, 27.01 2020 को बुक नंबर 01, वॉल्यूम में पंजीकृत सं. 2138 पृष्ट सं. 104, क्रम सं. 202003003100428.
भेरू लाल बैरवा पुत्र नंदा राम बैरवा	मांग सूचना की	आवासीय मकान, माप 52' फीट X 26' फीट = 135

पदि उक्त उधारकर्ता **सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो **सैटिन हाउसिंग फाइनेंस**

Email ID for UPSI Information - mgf.pit1930@gmail.com

GST No.: 07AAACT2356D2ZN REMOTE E-VOTING

SI No.	Description of Resolution	Type of Resolution
1.	Resolution under Section 180(1)(a) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 authorising the Board to sell, lease, transfer or otherwise dispose of undertaking in the Commercial Project of the company situated at MGF Market Place, Shalimar Place, New Delhi-110088	Special Resolution
2.	Resolution under Section 180(1)(a) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 authorising the Board to sell, lease, transfer or otherwise dispose of undertaking in respect of property situated at A-30, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044	Special Resolution
3.	Resolution under Section 180(1) (c) of the Companies Act, 2013 regarding authority to the Board to borrow money	Special Resolution

website of CDSL at www.evotingindia.com The company has appointed Ms. Anjali Yadav (M No. FCS No.6628 & CP No.7257) Practising Company Secretary as Scrutinizer for conducting the remote-evoting process through Postal Ballot in a fair and transparent

Commencement of Remote e-voting	Monday, the June 24, 2024 at 9.00 a.m.				
End of Remote e-voting	Tuesday, the July 23, 2024 at 5.00 p.m.				
EVSN	240613005				

respective Depository Participants.

07428906969/09899889227. The results of the Postal Ballot shall be declared within two working days from the close of remote e-voting and shall be uploaded on the website of

By Order of the Board Place: New Delhi M. No. ACS-2951 Date: June 20,2024

प्रामिकृत अधिकारी

एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड

जमानत पर आवास ऋण लिया है। रुपये की राशि रु. 2,93,906.00 (रुपए दो लाख तिरानबे हजा

प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का सं 50) की धारा 13(2) के अधीन ।.**श्रीमती दयावंती पत्नी धरमपाल** (उधारकर्ता) वीपीओ—चिदाना (52) तहसील गोहाना जिला.

मांग सूचना

"वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित

सोनीपत हरियाणा—131001 मोबाइलः— 9812072004. **२.श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र धर्मपाल** (सह—उधारकर्ता), वीपीओ— चिड़ाना (52) तहसील गोहाना जिला. सोनीपत हरियाणा—131001 मोबाइलः— 9812072004. नंबर 1 और 2 के बीच आपने हमारी शाखा से नं. 1 की निम्नलिखित संपत्ति को गिरवी रखने व

नौ सौ छः मात्र) 31.05.2024 को कैन फिन होम्स लिमिटेड को अनुबंधित दर पर भविष्य के ब्याज वे साथ देय है। बंधक रखी आस्ति का विवरण किला संख्या 288 / 12 / 2,14 / 2,16,17,18,19 पर स्थित 150 वर्ग गज क्षेत्रफल वाला एक प्लॉट मौजा गुडा चोपड़ा कॉलोनी गोहाना में स्थित है, एमसी लिमिट गोहाना तहसील गोहाना और जिल

सोनीपत 131301 में है। संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं: उत्तर:— गली 20' चौड़ी, पर्वः- दिग्रान का प्लॉट दक्षिण:- जय भगवान का मकान और दिग्रान का प्लॉट,

पश्चिम:– दिग्रान का प्लॉट आप को सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13(2) के अधीन पंजीकृत मांग सूचना क्रमांक 1 — 2 के प्रेषित की गई थी। परंतु सूचना बिना सुपुर्दगी वापस प्राप्त की जा चुकी है। अतएव अधोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम के अनुसार उक्त कर्जेदार / रों के अंतिम ज्ञात पर्ते के परिसर पर चस्पा करवा र्द है। अतः समाचार पत्र में यह सूचना प्रकाशित की जा रही है। चूंकि आप मंजूरी की शर्तों का पालन करने में असफल रहे हैं, अतः यह खाता एनएचबी के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 29.05.2024 को गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। एतद्द्वारा आपसे उपरोक्त राशि क भुगतान दिनांक 31.05.2024 से उस पर संविदा दर पर ब्याज सहित इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें विफल रहेंने पर अधोहस्ताक्षरी सरफासी ऐक्ट के अधीन उपरोक्त प्रतिभूति प्रवर्तित करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने हेत् बाध्य होगा।

इसके अतिरिक्त कर्जदारों / गारंटरों का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड (सीआईएन : U65921MH1995PLC212675) एक्सिस हाउस, सी-2, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांड्ररंग बुधकर AXIS FINANCE मार्ग, वली, मुंबई - 400 025

स्पीड पोस्ट / पंजीकृत ए.डी. / ईमेल /व्हाट्सएप द्वारा बिना किसी पूर्वाग्रह के मोनिका त्यागी (उधारकर्ता / बंधककर्ता) पलैट नं यी - 819, 8वीं मंजिल, बांके बिहारी शरणम, राज नगर एक्सटेशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201017 ईमेल आईडी : abhituagi@gmail.com मोबाइल नं: + 91 9540354898

संदर्भ सं - एएफएल/सीओ/2024-25/लीगल/मई/87

दिनांकः 20-06-2024

स्थानः सोनीपत

नगर एक्सटेशन, गाजियाबाद, जसर प्रदेश - 2010 ईमेल आईबी : abhituagi@gmail.com मोबाइल मंबर : + 91 9319334467 ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज मैसर्स अभिनव इंडस्ट्रीज (सह-उपारकर्ता । () (सह-उघारकर्ता ।। () जीएफ, युकान न. 06, लैंडमार्क त्लागी भाकेंट, 9 181, सेक्टर 3, राजेंद्र नगर, गाजियाबाद, धांस, नवर 838-वी-3, नूर नगर उत्तर प्रदेश - 201017, अन्य पता यहां पर भी: जीएफ, दुकान नंबर 06, लैंडमार्क त्यागी मार्केट, राज नगर एक्सटेंडान, गाजियाबाद, उत्तर

प्रदेश-201017 खस नंबर 838बी3, नूर नगर, राज नगर ईमेल आईडी : abhituagi@gmail.com एक्सटेशन, गाणियाबाद, उत्तर प्रदेश-201017 इमेल आईडी : abhituagi@gmail.com विषयः वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अबिनियम 2002 (समय-समय पर संशोधितानुसार) की बारा 13(2) तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत सूचना

अमिनव रयागी

(सह-जमारकर्ता ()

पठीट संख्या बी - 819, 8वीं मॉरेस्स बार्क बिहारी

ारणम्, राजः नगरः एक्सटेशनः, गाजियाबादः, उत्तरः

प्रदेश — 201017 अन्य पता यहां पर भी । पतिट

र्लख्या 307, 3 मलोर, बी ब्लॉक, ग्रीन व्यू हाईट, राव

इम, **एक्सिस फाइनेंस सिमिटेड ("एएफएस")**, कंपनी अधिनियम, 1958 के प्रायधानों के अंतर्गत निगमित कंपनी तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी जिसक पंजीकृत कार्यालय एक्सिस हाउस, ती-2 वाहिया इंटरनेशनल सेंटर, पांड्रंग बूधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई 400025 में है. सुरक्षित ऋणदाता के रूप में अपनी क्षमता में प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से वित्ती। प्रतिभूतियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) (इसके बाद सरफॉएसि अधिनियम' के रूप में सदर्गित) के अंतर्गत यह सूचना देते हैं : एएफएल ने अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में, उधारकराओं के अनुरोध पर अनुसूची । में विशेष रू

हजार पाँच साँ अद्वावन रुपयं मात्र) ('ऋण सुविधाएँ') के थे, जो उसमें उल्लिखित नियमों और शत पर ये, जो अनुसूची । में विस्तृत रूप से चिलिखित प्रतिभृति सरकॉएसि अधिनियम की धारा 2(1) (जेडसी) के अर्थ में एक 'सुरक्षित परिसंपत्ति' हैं और इस प्रकार एएफएल के पक्ष में प्रतिभृति हित 2. मुँकि आप उधारकर्ताओं ने अपनी समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के पुनर्मुगतान के लिए लगात चूक की है, इसलिए उधारकर्ताओं के खातों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों / दिशानिर्देशों के अनुपालन में 05,08,2024 को गैर-निष्पादित परिसंपति ('एनपीए') के रूप में वर्गीकृत किया गया था तथा धारकर्ता को इसकी विधिवत जानकरी दी गई थी। यहां यह बताना आवश्यक है कि खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की उपरोक्त जानकारी

एएफएल द्वारा आपको, पतेदारों को क्रेडिट सुविधा । वो लिए संदर्भ संख्या

से वर्णित कई अवधि ऋण स्वीकृत किए, जो कुल राशि रु. 35,46,558/- (पैतीस लाख कियालीस

एएफएल/एनपीए/सीओ/मई-24/641 दिनांकित 08.05.2024 को और क्रेडिट सुविधा ।। वे लिए संदर्भ संख्या एएफएल / एनपीए / सीओ / मई-24 / 840 दिनांकित 08.05.2024 को एनपीए सूधना नोटिस के माध्यम से दी गई थी। उपर्युक्त के महेनजर प्रतिभूत ऋणदाता वितीय परिसपित्तयों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथ प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अनुसा राधारकर्ता / सह-ज्यारकर्ता(ऑ) / बंधककर्ता को यह कैयानिक नोटिस जारी करने का हकदार हो नया है और एतदहारा आप सभी पतेदारों से संयुक्त रूप से और अलग-अलग प्रतिभूत ऋणदाता के प्रति बकाया राशि / कुल भारतीय रुपये 35,78,208/- (रुपये पैतीस लाख छिहतर हजार दो सौ आठ मात्र) 06.05.2024 को देय, का पूर्ण भूगतान करने का आत्वान करता है, जैसा कि यहां अनुसूची । में विशेष रूप से विरत्तत हैं, साथ में लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, डिफॉल्ट ब्याज, प्रीमियम, लागत, शुरूक आदि इस तिथि से पुनर्शृंगतान की तिथि तक क्रेडिट सुविधा के संबंध में संविदात्मक दरों पर का मी. सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों (साठ दिन) के भीतर भूगतान करने को कहते हैं, जिसके विफल होने पर प्रतिभूत ऋगदाता को ऊपर उल्लिखित प्रतिभूत परिसंपत्तियाँ के संबंध में सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 (4) और 15 के तहत उपलब्ध

प्रतिभृति हित के प्रवर्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीचे उल्लिखित उपाय शामिल हैं. क. यहां अनुसूची ए में उरिलक्षित प्रतिभूत परिसंपत्ति का कब्जा लेगा, जिसमें इसे प्राप्त करने के लिए पहें, असाइनमेंट या बिकी के माध्यम से इस्तातरण का अधिकार शामिल है: ख. सरफॉएसि अधिनियम की घारा 13(4)(ख) और घारा 15 के प्रावधानों में निर्धारित शर्तों के अधीन,

प्रतिमृत परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए पहें, उस्ताइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार

सहित आप, पतेदार(ओं) के व्यवसाय का प्रबंधन अपने हाथ में लेना: एएकएल द्वारा लिया जाएगा. घ. किसी भी समय लिखित सुधना द्वारा किसी भी व्यक्ति को, जिसने आप, पतेदार(ओ) से कोई भी प्रतिमत परिसंपत्ति अर्जित की है और जिससे कोई धनराशि आप, प्रतेदार(ओं) को देव है या हो सकती

है. एएफएल को उत्तरी धनराशि का भगतान करने के लिए कहाना. जो प्रतिभत ऋण का भगतान करने के लिए पर्याप्त हो। 5. आप सभी को अधिसूचित किया जाता है और सावधान किया जाता है कि सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 (13) के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिभूत परिसंपत्ति (यहां नीचे अनुसूची ए में निर्धारित) का बिक्री, पहें के मध्यम से या अन्यथा कोई हस्तांतरण प्रतिभूत ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना नहीं

 आपका ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियाँ को ऋण से मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 (8) वो प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। कुपया ध्यान दें कि धारा 13 (4) के तहत अपनी कार्रवाइयों की प्रक्रिया में एएफएल द्वारा किए जाने वाले सभी लागतों. शल्कों, व्ययों और उससे संबंधित सभी आकस्मिक व्ययों का भगतान अधिनियम के

तहत निर्धारित तरीके से आपसे वसूल की जा सकेंगी। कृषया यह भी ध्यान में कि यह वैधानिक सूचना प्रतिभृत ऋणदाता के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना जारी की गई है, जिसमें किसी भी जन्य कानूनी कार्यवाही / कानूनी कार्रवाई की शुरुआत शामिल है, जो किसी भी कानून के प्राथधानों के तहत उचित और आवश्यक समझी जाती है और/या अनुबंध के अनुसार या दोनों विधियों से हैं। आपका विश्वासमाञ

संपत्ति का के समस्त माग तथा जंश, जिसका नंबर है- "अपार्टमेंट नंबर 819, 8वीं मंजिल, ब्लॉक-बी,

जिसका सुपर एरिया 1231 वर्ग फीट (114.36 वर्ग मीटर) है, बांके बिहारी शरणम नामक युप हाउसिंग

कॉम्प्लेक्स में, राज नगर एक्सटेंशन, गांव नूर नगर, एनएच-58, गाजियाबाद, उतर प्रदेश-201017 में स्थित

है। इस प्रकार परिसीमित है :- पूर्व- सर्विस लेन, पश्चिम- सडक, उत्तर- अन्य सरकारी भूमि और दक्षिण-कंडीपी युप की बिल्डिम।

सुवस	ऋण खाता परेख्या	स्थाकृत मूल सीमा (आईएनआर में)	मुलंधन (आईएनआर में)	ন্সমপুক্ত ব্যাত (আईएনআर সী)	यातक तब अन्य सुरक (अईएनआर में)	कुल बकाया (आईएनअ में)
आयसन ऋग ('ऋष सुविधा ।')	01056AHA00004218	24,48,566	23,72,968	76.217	17)609	24,59,76
बंधक ऋग (ऋग सुक्रिय (1°)	0456MWA00007561	11,00,000	10,71,790	29.718	6,500	17,16,44
कुल बकाया						
नोट:- एएफएर	न द्वारा मल बकाया सा	शे पर ऋण र	रविधा । को f	लए १.75. प्र	ते वर्ष तथा	अरण सर्

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 21.06.2024

पंजीकत कार्यालय- के-6बी, फतेह टीबा, आदर्श नगर, जयपुर-302004 फोन: 91-141-2601020; CIN: L36911RJ1989PLC004945 ई-मेल : investor_relations@vaibhavglobal.com; वेबसाइट : www.vaibhavglobal.com

सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है तो साधारण सभा की तिथि 1 अगस्त, 2024 से 30

समय पर सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया अपनी नवीनतम ई-मेल आईडी को कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत करें। कृते वैभव ग्लोबल लिमिटेड

Applications on plain paper are invited from the Non Resident session 2024-25 under Non Resident Indian (NRI) quota.

Intending NRI candidates may apply with the "NRI Certificate" in the prescribed proforma or certificate from Indian Embassy/High Commission of the concerned country as to his/her parents are NRI and certified copy of relevant documents such as mark-sheet, NRI residential proof, NRI passport and bank account to the Dean, Faculty of Agriculture, Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Raja Pancham Singh

website www.rvskvv.net RVSKVV, Gwalior (M.P.) For any enquiry please contact on 95895-41459

यह कम्पनी परिमसामपन के अंतर्गत गुजर रही है। 9 मई, 2024 को बैंक के पास कम्पनी की स्वामित्व के सम्पत्ति के मूल गिरवी दस्तावेजों के निरीक्षण के समय यह पाया गया है कि नीचे वर्णित दस्तावेज नहीं मिल रहे है। बाद में यह माना गया है कि ये अतीत में एक बैंक से दूसरे बैंक में प्रेषण के दौरान स्थानाच्युत हो गये होंगे। इन दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार है:

मूल आवंटन/कब्जा पत्र

2. मूल भूगतान रसीद

3. उपरोक्त से संबंधित अन्य विविध दस्तावेजों।

ग्वालपहारी, गुड़गाँव, हरियाणा-122003 से संबंधित है।

तथा नीच दिये गये सम्पर्क के विवरणों पर परिसमापक से सम्पर्क करें:

TALBROS

/अदावा किए गए किसी भी लाभांश को कंपनी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, धारा 124(6) के अनुसार, वे सभी शेयर जिनके संबंध में गैर भूगतान / अदावा किए गए

हमारे रिकॉर्ड के अनुसार, पिछले 7(सात) वर्षों में (वर्ष 2016—17 के लिए अंतिम लाभांश के संदर्भ में)

उपर्युक्त नियमों के अनुसार, भौतिक रूप में रखे गए शेयरों को डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करके आईईपीएफ सस्पेंस खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है और ऐसे डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी

इंस्ट्रक्शन स्लिप देगी। यदि हमें 15 अक्टूबर, 2024 तक इस सूचना पत्र पर आपसे कोई जवाब नहीं मिलता है, तो हम उक्त नियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के उद्देश्य से, बिना किसी अतिरिक्त सूचना के, नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियत तिथि तक शेयरों को कंपनी के नाम पर आईईपीएफ सस्पेंस खाते में स्थानांतरित कर देंगे। कृपया ध्यान दें कि उक्त नियमों के अनुसार कंपनी के नाम पर आईईपीएफ प्राधिकरण / सस्पेंस खाते में हस्तांतरित किए गए अघोषित लाभांश राशि और शेयरों के संबंध में कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

74-75-76, सेक्टर-06, फरीदाबाद. हरियाणा—121006 फोन नंबरः 0129–4284314 ईमेलः cs@talbrosaxles.com

फोन नंबर: 011-29961281-282 ईमेलः beetalrta@gmail.com

Can Fin Homes Ltd

|cirpasps@gmail.com बनाई है।

अपने दावे सबूत के साथ प्रस्तुत करें।

दिनांकः 20 जून 2024

स्थानः नई दिल्ली